

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 मई 2017—वैशाख 26, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 मई 2017

अधि. क्र. 64-क्र. एफ 1-23-17-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, भीकनगांव, जिला खरगोन के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षित किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	06—बजरंग वार्ड 08—अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	13—डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 05—सुभाषगंज वार्ड 02—एकलव्य वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	03—राजीव वार्ड 04—भैरूगंज वार्ड 10—शिवाजी वार्ड 15—टेगोर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	01	06—बजरंग वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	02	02—एकलव्य वार्ड 05—सुभाषगंज वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	02	04—भेरूगंज वार्ड 15—टेगोर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	01—शास्त्री वार्ड 09—डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 11—गांधी वार्ड

अधि. क्र. 65-क्र. एफ 1-23-17-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, महेश्वर, जिला खरगोन के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षित किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	08—डॉ. अम्बेडकर वार्ड 15—संजय गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	04—इंदिरा गाँधी वार्ड 09—चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01—अहिल्या वार्ड 02—तिलक वार्ड 13—मौलाना आजाद वार्ड 14—राजीव गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	01	08—डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	01	09—चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	13—मौलाना आजाद वार्ड 14—राजीव गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	06—जवाहर वार्ड 10—महावीर वार्ड 11—सहस्त्रार्जुन वार्ड 12—शिवाजी वार्ड

अधि. क्र. 66 क्र. एफ 1-23-17-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षित किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	11—डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 12—महर्षि मंडनमिश्र वार्ड 13—चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	15—मसीह वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01—भगतसिंह वार्ड 04—महात्मा गांधी वार्ड 06—सुभाषचन्द्र वार्ड 10—जवाहरलाल नेहरू वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	02	11—डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 13—चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	02	06—सुभाषचन्द्र वार्ड 10—जवाहरलाल नेहरू वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	03—सरदार पटेल वार्ड 08—महाराणाप्रताप वार्ड 09—इंदिरा गांधी वार्ड 14—राजीव गांधी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, अपर सचिव.